

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2018 — भाद्रपद 29, शक 1940

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 20 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक 6666/एफ -04-35/वि./2018/14-2. — राज्य शासन, एतद्द्वारा साग-सब्जी, फल, फूल उत्पादक कृषकों के समग्र उत्थान एवं उनके समस्याओं के निराकरण हेतु “छत्तीसगढ़ शाकम्भरी बोर्ड” का गठन करती है. छत्तीसगढ़ राज्य शाकम्भरी बोर्ड के संचालक मंडल में निम्नानुसार अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे :-

(1)	(2)	(3)
1	राज्य शासन द्वारा नामांकित	अध्यक्ष
2	राज्य शासन द्वारा नामांकित (पाँच) अशासकीय सदस्य	सदस्य
3	कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि (उप सचिव या उससे उच्चतर स्तर का)	सदस्य
4	सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा नामांकित अधिकारी (उप सचिव या उससे उच्चतर स्तर का)	सदस्य
5	सचिव, छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा नामांकित अधिकारी (उप सचिव या उससे उच्चतर स्तर का)	सदस्य
6	संचालक, वाणिज्य एवं उद्योग या उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
7	संचालक कृषि	सदस्य
8	संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	सदस्य
9	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड	सदस्य
10	उप संचालक कृषि/उद्यानिकी	सदस्य सचिव

- छत्तीसगढ़ शाकम्भरी बोर्ड के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष होगा.
- बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित होंगे. अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जा सकेगी.
- बोर्ड की नियम एवं शर्तें पृथक से जारी किये जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के.सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.